



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 1982/पौष 1, 1904  
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 1982/PAUSH 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1982

New Delhi, 21 December, 1982

का० नि० आ० 32 (अ) — केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 33-ई०, तारीख 21 दिसम्बर, 1981 द्वारा यह घोषणा की थी कि देहू रोड छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड देहू रोड के संविधान को परिवर्तित करना वांछनीय है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि देहू रोड छावनी के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल का बढ़ाना वांछनीय है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को 22 जून, 1983 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत के गठन के लिए, इनमें से जा भी पहला हो, बढ़ाती है।

[का० सं०-29/34/सो०/भू० व० छा०/77/9079-सी०/डी० (क्यू०एण्ड सी०)]

S.R.O. 32(E)—Whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 33-E dated the 21st December, 1981 had declared that for the administration of the Dehu Road Cantonment it was desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Dehu Road,

And whereas the Central Government is satisfied that for the administration of the Cantonment, Dehu Road, it is desirable to extend the term of office of the said Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board up to and inclusive of 22nd June, 1983 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[File No. 29/34/C/L&C/77/9079-C/D (Q & C)]

का० नि० आ० 33 (अ) (ई) :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में, जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 32-ई०, दिनांक 21 दिसम्बर

1982 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1982 के भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार, एनडू द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड, देहू रोड के एक सदस्य के रूप में 23 दिसम्बर, 1982 से मनोनीत किया है :—

1. कैप्टन आर० के० सिन्हा धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित ।
2. श्री पी०जे० अग्रवाल धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित ।

[फा०सं०-29/34/सी०/भू० व छा० /77/9079-  
—सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

S.R.O 33(E) -- In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O 32-E. dated the 21st December, 1982, published in the Government of India, Extraordinary Gazette. Part II Section 4, dated the 22nd December, 1982, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the members of the Cantonment Board, Dehu Road with effect from 23rd December 1982:—

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Capt. R K. Sinha  | nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14. |
| 2. Shri P.J. Agarwal | nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14. |

[File No. 29/34/C/L & C/77/9079-C/D (Q & C)]

BHASKAR GHOSH, Jt. Secy.